



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2744] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941
No. 2744] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

का.आ. 3009(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिश पर, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत के राजपत्र (असाधारण) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई तालिका 1 में निहित विवरण के अनुसार माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (जीस्टेट) की राज्य पीठों और नीचे दी गई तालिका 2 में निहित विवरण के अनुसार क्षेत्रीय पीठों के सृजन को अधिसूचित करती है।

तालिका - 1

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थान
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाडा
2	बिहार	पटना
3	छत्तीसगढ़.	रायपुर
4	दिल्ली	नई दिल्ली
5	गोवा	पणजी
6	गुजरात	अहमदाबाद
7	हरियाणा	हिसार
8	हिमाचल प्रदेश	शिमला
9	झारखण्ड	रांची

10	कर्नाटक	बैंगलुरु
11	केरल	तिरुवनन्तपुरम्
12	महाराष्ट्र	मुम्बई
13	ओडिशा	कटक
14	पुडुचेरी	पोंडीचेरी
15	पंजाब	चण्डीगढ़
16	तमिलनाडु	चेन्नई
17	तेलंगाना	हैदराबाद
18	त्रिपुरा	अगरतला
19	उत्तराखण्ड	देहरादून
20	पश्चिमी बंगाल	कोलकाता
21	असम	गुवाहाटी, असम में जीएस्टेट की समान राज्य पीठ
22	अरुणाचल प्रदेश	
23	मणिपुर	
24	नागालैंड	
25	सिक्किम	
संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानसभा)		
26	अंडमान और निकोबार	राज्य पीठ पश्चिम बंगाल (कोलकाता)
27	दादरा और नगर हवेली	राज्य पीठ महाराष्ट्र (मुम्बई)
28	दमन और द्वीप	राज्य पीठ महाराष्ट्र (मुम्बई)
29	लक्षद्वीप	राज्य पीठ केरल (एर्नाकुलम)
30	चण्डीगढ़	राज्य पीठ पंजाब (चण्डीगढ़)

तालिका 2

क्रम.सं.	राज्य का नाम	स्थान
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम और तिरुपति में एक एक क्षेत्रीय पीठ
2.	गुजरात	सूरत और राजकोट में एक एक क्षेत्रीय पीठ
3.	महाराष्ट्र	पुणे और नागपुर में एक एक क्षेत्रीय पीठ
4.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता में दो क्षेत्रीय पीठ

[फा. सं. ए. 50050/150/2018-प्रशा. 1ग (सीस्टेट)]

ऋत्विक् पांडेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st August, 2019

S.O. 3009(E).—In exercise of the powers conferred by the sub section 6 of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Central Government, on the recommendation of the Goods and Services Tax Council, hereby notifies the creation of the State Benches of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) as per the details contained in the table 1 below and Area Benches as per the details contained in table 2 below, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India (Extraordinary):—

Table-1

S. No.	Name of State/Union Territory	Location:
1.	Andhra Pradesh	Vijayawada
2.	Bihar	Patna
3.	Chhattisgarh	Raipur
4.	Delhi	New Delhi
5.	Goa	Panaji
6.	Gujarat	Ahmedabad
7.	Haryana	Hisar
8.	Himachal Pradesh	Shimla
9.	Jharkhand	Ranchi
10.	Karnataka	Bengaluru
11.	Kerala	Thiruvananthapuram
12.	Maharashtra	Mumbai
13.	Odisha	Cuttack
14.	Puducherry	Pondicherry
15.	Punjab	Chandigarh
16.	Tamil Nadu	Chennai
17.	Telangana	Hyderabad
18.	Tripura	Agartala
19.	Uttarakhand	Dehradun
20.	West Bengal	Kolkata
21.	Assam	Common State Bench of GSTAT at Guwahati, Assam
22.	Arunachal Pradesh	
23.	Manipur	
24.	Nagaland	
25.	Sikkim	
UTs (Without Legislature)		
26.	Andaman & Nicobar	State Bench of West Bengal (Kolkata)
27.	Dadra & Nagar Haveli	State Bench of Maharashtra (Mumbai)
28.	Daman & Diu	State Bench of Maharashtra (Mumbai)
29.	Lakshadweep	State Bench of Kerala (Ernakulum)
30.	Chandigarh	State Bench of Punjab (Chandigarh)

Table 2

S. No.	Name of State	Location:
1.	Andhra Pradesh	One Area Bench each at Vishakhapatnam and Tirupati
2.	Gujarat	One Area Bench each at Surat and Rajkot
3.	Maharashtra	One Area Bench each at Pune and Nagpur
4.	West Bengal	Two Area Benches at Kolkata

[F. No. A.50050/150/2018-Ad.1C(CESTAT)]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.